



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 470]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 3, 2015/फाल्गुन 12, 1936

No. 470]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 3, 2015/PHALGUNA 12, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च 2015

का.आ. 645(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2693 (अ), तारीख 20 अक्टूबर, 2014, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा पंजाब राज्य के साहिबजादा अजीत सिंह नगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के 5.735 कि.मी. से 39.960 कि.मी (अम्बाला—जिरकपुर सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 23 नवम्बर, 2014 को “अजीत (पंजाबी)” और “दि हिन्दुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी)” दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के 5.735 कि.मी. से 39.960 कि.मी तक (अम्बाला—जिरकपुर सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिला का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम हदबस्त संख्या के साथ	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (बीघा—बिसवा) में	भूस्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	साहिबजादा अजीत सिंह नगर	डेराबस्सी	(1) दप्पर एच.बी. संख्या 20	379	निजी	बरानी	1--3	हरनेक सिंह 1/6 भाग, हाकम सिंह 1/6 भाग, रविन्दर सिंह 1/6 भाग पुत्रान बलवंत सिंह, सतविन्दर सिंह 1/18 भाग पुत्र शमशेर सिंह, जसपाल सिंह, जहांगीर सिंह 1/18 समभाग पुत्र लाभ सिंह, जसजीत सिंह 7/54 भाग पुत्र जसमेर सिंह, सुरिन्दर कौर 1/27 भाग विधवा अजमेर सिंह, लाभ सिंह 1/12 भाग पुत्र बलवंत सिंह, प्रेम कौर 1/36 भाग पत्नी लाभ सिंह, शमशेर सिंह 1/9 भाग पुत्र बलवंत सिंह
				380	निजी	बरानी	2--6	हरनेक सिंह 1/6 भाग, हाकम सिंह 1/6 भाग, रविन्दर सिंह 1/6 भाग पुत्रान बलवंत सिंह, सतविन्दर सिंह 1/18 भाग पुत्र शमशेर सिंह, जसपाल सिंह, जहांगीर सिंह 1/18 समभाग पुत्र लाभ सिंह, जसजीत सिंह 7/54 भाग पुत्र जसमेर सिंह, सुरिन्दर कौर 1/27 भाग विधवा अजमेर सिंह, लाभ सिंह 1/12 भाग पुत्र बलवंत सिंह, प्रेम कौर 1/36 भाग पत्नी लाभ सिंह, शमशेर सिंह 1/9 भाग पुत्र बलवंत सिंह

[फा. सं. भाराराप्रा/पीआईयू/सीएचडी/11052/ए—जैड/एलए]

माया प्रकाश, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2015

S.O. 645(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 2693(E), dated 20th October, 2014, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of Section 3-A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 22 on the stretch of land from km. 5.735 to km. 39.960 (Ambala-Zirakpur Section) in the district of Sahibzada Ajit Singh Nagar, in the State of Punjab,

And, whereas, the substance of the said notification has been published in “Ajit (Punjabi)” and “The Hindustan Times (English)” both dated 23rd November, 2014; under sub-section (3) of Section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretches of land from km. 5.735 to km to 39.960 (Ambala-Zirakpur Section) of National Highway No. 22 in the State of Punjab.

Serial number	Name of district	Name of taluk	Name of the village with hadbast number	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in Bigha-Biswa)	Name of the land Owner/interested persons
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sahibzada Ajit Singh Nagar	Dera Bassi	(1) Dappar H.B. No. 20	379	Private	Barani	1--3	Harnek Singh 1/6 share, Hakam Singh 1/6 share, Ravinder Singh 1/6 share S/o Balwant Singh, Satwinder Singh 1/18 share S/o Samsher Singh, Jaspal Singh-Jahangir Singh 1/18 Share equally S/o Labh Singh, Jasjeet Singh 7/54 share S/o Jasmer Singh, Surinder Kaur 1/27 share Wd/o Ajmer Singh, Labh Singh 1/12 share S/o Balwant Singh, Prem Kaur 1/36 share W/o Labh Singh, Shamsher Singh 1/9 share S/o Balwant Singh
				380	Private	Barani	2--6	Harnek Singh 1/6 share, Hakam Singh 1/6 share, Ravinder Singh 1/6 share S/o Balwant Singh, Satwinder Singh 1/18 share S/o Samsher Singh, Jaspal Singh-Jahangir Singh 1/18 Share equally S/o Labh Singh, Jasjeet Singh 7/54 share S/o Jasmer Singh, Surinder Kaur 1/27 share Wd/o Ajmer Singh, Labh Singh 1/12 share S/o Balwant Singh, Prem Kaur 1/36 share W/o Labh Singh, Shamsher Singh 1/9 share S/o Balwant Singh

[F. No. NHAI/PIU/CHD/11052/A-Z/LA]

MAYA PRAKASH, Dirctor